

## Mirza International Limited

A-7, Mohan Coop. Indl. Estate, Mathura Road, New Delhi - 110044 Ph. +91 11 4095 9500 / 9501 CIN: L19129UP1979PLC004821 Email: marketing@mirzaindia.com Website: www.mirza.co.in

August 6, 2024

**BSE Limited** 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001

**Scrip Code: 526642** 

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East),

Mumbai 400 051

NSE symbol: MIRZAINT

Dear Sir/Madam,

Sub.: Newspaper advertisement pertaining to Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2024.

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper advertisement pertaining to Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2024. The advertisements were published in English and Hindi newspapers today.

This information will also be hosted on the Company's website, at <a href="https://www.mirza.co.in">www.mirza.co.in</a>

This is for your information and records.

Yours faithfully,
For Mirza International Limited

Harshita Nagar Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above.







Registered & Head Office : 14/6, Civil Lines, Kanpur - 208 001 Ph. +91 512 253 0775

Email : info@mirzaindia.com Website : www.mirza.co.in



Government of Kerala

Published Tenders from 01-08-2024 to 04-08-2024

Directorate of Animal Husbandry

Tender ID: 2024 DAH 683624 1 \* Director \* Supply and Installation of Air Conditioners \* Closing Date: 29-Aug-2024

https://etenders.kerala.gov.in for more details.

Ro.No:01-04/Aug/2024/PRD/(N)7

#### THE YAMUNA SYNDICATE LIMITED Registered Office: Radaur Road, Yamunanagar - 135001, Harvana

CIN: L24101HR1954PLC001837, Ph.: +91-1732-255479. E-mail: companysecretary@yamunasyndicate.com Website: www.yamunasyndicate.com

#### NOTICE OF THE 70th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

i) NOTICE is hereby given that pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), as amended, Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) and all the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities Exchange Board of India (SEBI), the Company is providing to its Members facility to exercise their right to vote by electronic means on all the resolutions proposed to be considered in the Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company scheduled to be held on Friday, August 30, 2024 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ('VC') or Other Audio Visual Means ('OAVM') for which purpose the Registered Office of the Company situated at Radaur Road, Yamunanagar-135001, shall be deemed as the venue for the meeting. The Company has engaged the services of National Securities Depository (NSDL) as the Agency to provide remote e-voting facility as well as e-voting during the AGM.

ii) In compliance with aforesaid MCA and SEBI circulars, the Notice of AGM along with instructions for e-voting and Annual Report of Company for Financial Year 2023-24 have also been sent through electronic mode to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository participant(s) on Monday, August 5, 2024. The same is also available on the Company's website i.e. www.yamunasyndicate.com and on the BSE website www.bseindia.com and on the NSDL website www.evoting.nsdl.com

iii) The remote e-voting facility will commence on Tuesday, August 27, 2024 from 9:00 A.M. and will end on Thursday, August 29, 2024 at 5:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
Only those persons, whose name appears in the register of Members/Beneficial owners as on the Cut-off date i.e. Friday, August 23, 2024 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the meeting.

iv) Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on Cut-off date i.e. August 23, 2024 can obtain User ID and password as per the instructions provided in the Notice of AGM for e-voting. A person already register with NSDL/CDSL for evoting can use his/her existing User ID and Password for casting vote

v) The members are being provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through NSDL platform. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM are provided in Notice of AGM. The Members, who shall have already cast their vote by remote e-voting may attend the meeting, but shall not be entitled to cast their e-vote again during the meeting.

vi)Mr. Pramod Kothan, practicing company secretary (Membership no. F7091) (E-mail: ppdkothari71@gmail.com) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the electronic voting process, in a fair and transparent manner.

vii) The procedure for electronic voting is available in the Notice of AGM. In case of any query relating to voting by electronic means, the Members can call on 022-4886-7000 or send a request to NSDL at evoting@nsdl.com who will address the query/grievances connected with the voting by electronic means. The Members may also contact to the Company Secretary a companysecretary@yamunasyndicate.com

#### Notice of Book Closure

NOTICE is also given that pursuant to provisions of Section 91 of Companies Act 2013 and Rules made there-under and as per Regulation 42 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, August 24, 2024 to Friday, August 30, 2024 (both days inclusive) and Friday, August 23, 2024 shall be taken as Record date for determining entitlement of members for payment of dividend of Rs. 400/- per equity share of Rs. 100/ each, as recommended by the Board of Directors for the financial year ended March 31, 2024 subject to approval of the Members in the AGM.

Date: August 5, 2024 Place: Yamuna Nagar- 135001

For The Yamuna Syndicate Ltd. Sd/- (Ashish Kumar) Company Secretary



### MIRZA INTERNATIONAL LIMITED

Regd. Off.: 14/6, Civil Lines, Kanpur - 208001

website: www.mirza.co.in: e-mail: compliance@mirzaindia.com Tel.: +91512 2530775

#### EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE 2024

(₹ in Lakh except earning per share data)

			Stand	alone	21417m	Consolidated				
SI. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)	
1	Total Income from Operations	13749.04	14327.54	12690.24	60985.48	14372.53	15295.30	13031.71	63837.13	
2	Net Profit/(Loss) for the Period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	182.02	135.16	243.65	1876.89	110.25	140.97	286.24	1659.61	
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	182.02	135.16	243.65	1876.89	110.25	140.97	286.24	1659.61	
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	136.02	88.66	217.65	1397.89	64.19	118.91	244.27	1203.83	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income(after tax)]	190.24	333.64	127.00	1418.41	136.04	351.94	197.77	1247.52	
6	Equity Share Capital	2764.04	2764.04	2764.04	2764.04	2764.04	2764.04	2764.04	2764.04	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance sheet of the previous year				44260.57				52497.10	
8	Earning Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing & discontinued operations)									
	1. Basic:	0.10	0.06	0.16	1.01	0.05	0.09	0.18	0.87	
	2. Diluted:	0.10	0.06	0.16	1.01	0.05	0.09	0.18	0.87	

Notes: a) The above is an extract of the detailed format of the quarterly and year ended Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchange(s) under the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full Format of Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on Company's website at www.mirza.co.in. b) The above Consolidated Financial Results of Mirza International Limited (The Company), Wholly Owned Subsidiaries (WOS) i.e: T N S Hotels And Resorts Private Limited and RTS Fashion Ltd. are drawn in terms of Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. c) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on August 5, 2024. The auditors of the Company have carried out a Limited Review Report on the Un-audited Financial Results for the quarter ended 30.06.2024 d) Figures for the period have been regrouped/rearranged whenever necessary to make them comparable.

Date: 05.08.2024

Place: New Delhi

For Mirza International Limited

(Tauseef Ahmad Mirza) Managing Director (DIN 00049037)

#### AmulFed Dairy (A unit of Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd)

#### TENDER NOTICE

AmulFed Dairy is one of the advanced state-of-the-art plant in Asia. AmulFed Dairy manufacture Milk and Milk products like, Milk Powder, Fermented Product, Ice-cream, Ghee, Butter and Long life milk under the brand name of Amul. AmulFed Dairy invites bids from reputed vendors as per

- Rate contract for sale of Printed and Unprinted waste from Packaging Film Plant
- 2. Hiring of Cold Slore within 60 to 70 Km radius from AFD, Bhat for Storage of Butter with C&F activity
- C & F Activity for Hired Dry Godown by AFD.
- Transportation (Ambient) contract of Ghee/Powder with loading from AFD to hired Godown and vice versa within 50 to 70 Km radius from AFD, Bhat
- 5. Transportation(Refrigerated) contract of Butter from AFD to hired Godown and vice versa within 60 to 70 Km radius from AFD Bhat

For further information please visit our website www.amul.com/m/tender-notice

General Manager AmulFed Dairy, Gandhinagar

Plot No. 35, Nr. Indira Bridge, Village Bhat, Dist: Gandhinagar, Pin: 382428, Phone 079-23969055-56

Amul



SAGAR

# DEVYANI

## **DEVYANI INTERNATIONAL LIMITED**

Corporate Identification Number: L15135DL1991PLC046758 Registered office: F-2/7, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020

## info**edge** INFO EDGE (INDIA) LIMITED

CIN: L74899DL1995PLC068021 Regd Office: GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi-19 Web http://www.infoedge.in: Email: investors@naukri.com

#### NOTICE OF THE 29th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Wednesday, August 28, 2024 at 05:30 P.M. IST, through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM). The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company i.e. GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi-110019.

Pursuant to the General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as 'the Circulars'), companies are allowed to hold AGM through VC/OAVM, without the physical presence of the members at a common venue. Accordingly, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM. The Company, in compliance with the Circulars, has on August 5, 2024, duly sent the AGM Notice and Annual Report for the FY 2023-24 by e-mail only to the members of the Company holding shares of the Company as on Monday, July 29, 2024 (Cut-off date for sending the Notice).

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI & Dictorura Paguiramente | Paguistiane 2015 as amended the Comm

3/5

8/6/24, 10:09 AM

#### Business Standard E-Paper

OA) filed against you for recovery of debts of to 5429951/- (application along with copies if documents etc. annexed). n accordance with sub-section (4) of section	नई दिल्ली 110034. फोन: +91-11-48440050.		रिज़र्ग (पुनर्मूल्यांकन 1	and the same of th				72,721	(F)	कर्जदार और का न		प्रत्यामूत परिसंपत्तियों का विवरण	13(2) नोटिस तारीख और र
rected as under:  to show cause within thirty days of the rivice of summons as to why relief prayed or should not be granted. (ii) to disclose articulars of properties or assets other than	www.hitechpipes.in.info@hitechpipes.in सार्वजनिक सूचना द्दारा सूचित किया जाता है कि लेखापरीला तिते और कपनी के निदेशक मंडल की बैठक	8 (११०/- प्र (क) मूल (ख) तरल		विकृत नहीं है)	6.14	(19.68) (19.68)	(11.1)	(48.93) (48.93)		हण खाता सं:- 140150065. वावेदकः- ततीश कुमार पुत्र चंदरमान,	32		
pplicant under serial number 3A of the	मवार, 12 अगस्त, 2024 को आयोजित की	- X			1	(10.00)	4	110.007		च.न 140/27, ब्रह्म नग	र गली सूरी पेट्रोल पंप.	एच.न 140/27, ब्रह्म नगर,	एनपीए ता
	एगी जिसमें अन्य बातों के साथ साथ, 30	ध्यान दें:	A A	रेणामों के विस्तृत प्रार	on on sin 4 Poi	CCOI AND	The street	dimension and		ग्रेनीपत-131001		गली सूरी पेंट्रोल पंप, सोनीपत	08.02.20
ssets or such other assets and properties	, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के केक्सित वितीय परिणामों (एकल एवं समेकित)			के तहत स्टॉक						सह—आवेदकः—		-131001. हरियाणा स्थित	₹. 3,33,97
riginal application, pending hearing and	विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा।			ia.com/www.bseii						हुति देवी पत्नी चंदर मान, व्य.न. 140/27, ब्रहम नगः	on which the firm of		दिनांक 25.07.
roperties. (iv) You shall not transfer by way if sale, lease or otherwise, except in the	सुचना कंपनी की वेबसाइट	इन वित्तीय परिण	ामों को कंपनी अधि	नेयम, 2013 की धार	133 में निर्दिष्ट अ	नसार कंपनी (भारती	य लेखा मानक) निय	म. 2015 के तहत		भेनीपत-131001	र गला सूस पट्टाल प्रम	Service of	देय ब्याज औ
	w.hitechpipes.in और स्टॉक एक्सबेंजों की	सूचित अनुसार भ	ारतीय लेखा मानक	('Ind-AS') के अनु	प्तरण में तैयार किया	गया है।				नमानतीः—		गज पर हक विलेख नं. 2381	
r disclosed under serial number 3A of the	साइट अधारी www.nseindia.com, w.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।	उक्त वित्तीय परि	णामों की जाँच लेखा	परीक्षा समिति द्वारा	की गई है और इस	सकी मंजूरी 05 अगर	त. 2024 को आयोहि	जेत कंपनी के बोर्ड		किश सिंह		दिनांकित 08.06.1994 के जमा	प्रभारों स
pproval of the Tribunal. (v) You shall be liable	के अलावा, सेबी (आंतरिक व्यापार का निषेध)	निदेवकों की बैठर	क में दी गई है।							च नं 568 / 26, आयं नगर, र	सोनीपतढ	द्वारा न्यायसंगत बंधन।	
ale of secured assets or other assets and	नेयम, 2015, के लागू विनियमों के अनुसरण				कृते औ	र वी-मार्ट रिटेल	लिमिटेड के बोर्ड नि			प्रनय पता:- मंपत्ति पता:- एच.न. १४० /			
	कंपनी के इविवटी शेवरों के लेनदेन के लिए							अद्योहरताक्षरी / -		स्थाल पताः— एव.न. १४०७ होल पंप, सोनीपत, हरियाणा			
nstitutions holding security interest over	ठिंग विन्डों जो 1 जुलाई, 2024 से बंद बी. 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाठी लिए	स्थानः गुरुग्राम						ललित अग्रवाल प्रबंध निदेषक		Mary Control of the C		अधिनियम की उप-वारा 13 के प्रावचानों	×
ou are also directed to file the written	नी के बनंकेसित वित्तीय परिनामों की घोषणा	दिनांकः ०५ अग	स्त 2024					DIN: 00900900		पारसपात्तया का मुक्त करान ाता है।	क लिए उपलब्ध समय म	आधानयम का उप—धारा 13 के प्रावधाना	न कजदार का ध
	बाद 48 घंटे की समाप्ति तक बंद रहेगी।	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Own		- 0	मार्ट रिटेल लि	93			STATE OF THE PARTY OF				Sealer Profile
on 06.12,2024 at 10:30 AM falling which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of	कृते हाई टेक पाइप्स लिमिटेड								स्थानः व दिनांकः	608.2024			प्रा <b>षिवृ</b> एलआईसी हाऊसिंग
his Tribunal on this date 19.07.2024.	हत्ता./- ानः नई दिल्ली अकल कुमार	पंजीकृ		11, गुरू राम द्वास न				110092					
	वे: 05.08.2024 कंपनी सचित	30 0000 000	कापारट कार	ਧੀਕਕ- ਪੁਕੀਟ ਕ. <b>862</b> , 4640046: ਸੀਕ: cs€	उद्याग विहार इडास्ट्रवल	शस्या, फज- <b>४</b> . गुरुवा	™-122016			_	oef इलेक्ट्रॉ		0
	MIR MIR		CIN: L1912	ATION 9UP1979PLC004 Civil Lines, Kanpo	1821	MITE	D			प्रसिः		काकर/प्रकाशन/ई-मेल/वाट्सऐप के जरिए सूचना भेजने की तारीख सूचना विपकाने की तारीख	05-08-2024 🕏
EXTRA		Reg www.mirza.co.ii	CIN: L1912 d. Off.: 14/6, ( n: e-mail: com	9UP1979PLC004 Civil Lines, Kanpi pliance@mirzai	1821 ur - 208001 ndia.com Tel. :	+91512 25307	75 JUNE 2024			1.	, लेजर प्याइंट ऑफसेट 195, मेरठ-उत्तर प्रदेश-250001 दीपक कुमार गोयल, सं. 1!	सूचना भेजने की तारीख	05-08-2024 है के सामने, सदर,
EXTRA	website:	Reg www.mirza.co.ii	CIN: L1912 d. Off.: 14/6, ( n:e-mail:com DATED FINANCI	9UP1979PLC004 Civil Lines, Kanpi pliance@mirzai IAL RESULTS FO	1821 ur - 208001 ndia.com Tel. :	+91512 25307	75 JUNE 2024 (₹ in La	kh except earning	per share d	1. 2.	लेजर पाइंट ऑकसेट 195 मेरठ-उत्तर प्रदेश-250001	सूचना मेजने की तारीख सूचना विपकाने की तारीख सदर-हीरो होंडा गती, दिल्ली बस रटेंड 95, मोहल्ला-गंज बाजार, गेरठ केण्ट, वं	05-08-2024 है के सामने, सदर,
	website:	Reg www.mirza.co.ii AND CONSOLI	CIN: L1912 d. Off.: 14/6, 0 n: e-mail: com DATED FINANCI	9UP1979PLC004 Civil Lines, Kanpr pliance@mirzain IAL RESULTS FO	1821 ur - 208001 India.com Tel. :	+91512 25307 ER ENDED 30th	75 JUNE 2024 (₹ in La Consol	idated		1. 2. 3.	लेजर पाइंट ऑक्सेट 195, मेरठ-उत्तर प्रदेश-250001 दीपक कुमार गोयल, सं 1! 250002 दीपक कुमार गोयल, 4. र्रा दीपक कुमार गोयल, 4. र्रा क्रमांक 3 एवं 4 दोनों का पत	सूचना मेजने की तारीख सूचना विपकाने की तारीख सदर-हीरो होंडा गती, दिल्ली बस रटेंड 95, मोहल्ला-गंज बाजार, गेरठ केण्ट, वं	05-08-2024 है के सामने, सदर, गेरट-उत्तर प्रदेश-
SI. Partice	website : ACT OF UNAUDITED STANDALONS	Reg www.mirza.co.li AND CONSOLI Quarter	CIN: L1912 d. Off.: 14/6, ( n: e-mail: com DATED FINANCI Stand Quarter	9UP1979PLC004 Civil Lines, Kanpi pliance@mirzaii IAL RESULTS FO lalone Quarter	IS21 ur - 208001 India.com Tel. : IR THE OUARTE	+91512 25307 ER ENDED 30th Quarter	75 JUNE 2024 (₹ in La Consol Quarter	idated Quarter	Y	1. 2. 3.	लेजर प्याइंट ऑफसेट 195, मेरत-जार प्रदेश-250001 वीपक कुमार गोयल, सं. 1! 250002 वीपक कुमार गोयल, 4, र्रा क्रमांक 3 एवं 4 दोनों का पत प्रदेश-251309	सूचना बेजने की तारीख सूचना विपकाने की तारीख सदद-होरो होंडा गती, दिल्ली बस रहेंड 95, मोहल्ला-गंज बाजार, मेरठ कैण्ट., र वि गोयल 1: मकान नं -23, मंडी साऊच-1, बुदाना-	05-08-2024 है के सामने, सदर, रिट-उत्तर प्रदेश-
CI	website : ACT OF UNAUDITED STANDALONS	Reg www.mirza.co.li AND CONSOLI Quarter ended	CIN: L1912 d. Off.: 14/6, ( n: e-mail: com DATED FINANCI Stand Quarter ended	9UP1979PLC004 Civil Lines, Kanpi pliance@mirzaii IAL RESULTS FO lalone Quarter ended	IS21 ur - 208001 India.com Tel. : IR THE QUARTE Year ended	+91512 25307 ER ENDED 30th Quarter ended	75  JUNE 2024  (₹ in La  Consol  Quarter ended	idated Quarter ended	Y	1. 2. 3. tan ed farer	, लेजर पाइंट ऑफसेट 195, भेरठ-जार प्रदेश-250001 विक्रमार गोयल, सं 1! 250002 दीपक कुमार गोयल, 4. रि क्रमांक 3 एवं 4 बीनों का पत प्रदेश-251309 ध: प्रतिभृतिकरण एवं वितीय	मुख्या पैजने की वारीख सुबना विपकाने की तारीख सादर-होरो होडा गती, दिल्ली बत रटेंड 35. गीडल्ला-गंज बाजार, गेरठ केंग्ट., मं व्य-गोयल व: मकान न 23, मंडी साकस्य 1, बुदाना- संपत्तियों के पुनर्गाटन लक्ष्म प्रतिसृति हित उ	05-08-2024 है के सामने, सदर, रेरठ-उत्तर प्रदेश- पुजफ्करपुर, उत्तर स्थिनिबम, 2002
SI. Partice	website : ACT OF UNAUDITED STANDALONS	Reg www.mirza.co.ii AND CONSOLI Quarter ended 30.06.2024	CIN: L1912: d. Off.: 14/6, ( n:e-mail:com  DATED FINANC  Stand  Quarter ended 31.03.2024	9UP1979PLC004 Civil Lines, Kanpi pliance@mirzain IAL RESULTS FO lalone Quarter ended 30.06.2023	1821 Jur - 208001 India.com Tel. : IR THE QUARTE Year ended 31.03.2024	+91512 25307 ER ENDED 30th Quarter ended 30.06.2024	JUNE 2024 (₹ in La Consol Quarter ended 31.03.2024	Quarter ended 30.06.2023	y end 31.03.20	1. 2. 3. tar ear ed faux ("ar	, लेजर पाइंट ऑकरोट 195, भेरठ-जार प्रदेश-250001 विषक कुमार गोयल, सं ! 250002 दीपक कुमार गोयल, 4. ! क्रमांक 3 एवं 4 दोनों का पत प्रदेश-251309 प प्रतिमृतिकरण एवं वितीय वितियम") के साथ पठित इ	युक्ता पेजने की धारीक सुबना विष्काने की धारीक साद-होंगे होंडा गती, दिल्ली बत रहेंड 35, गोदल्ला-गंज बाजार, भेरट केण्ट, में क्षेत्र गोयल इ. मकान - 23, गडी साठका-1, युवाना- केरियुंगि हित (युक्तन) गियम, 2002 के विस्मृति हित (युक्तन) गियम, 2002 के	05-08-2024 है के सामने, सदर, गेरट-उत्तर प्रदेश- गुजफ्करपुर, उत्तर पिटिनयम, 2002 नियम 8(6) के
SI. Partice	website : ACT OF UNAUDITED STANDALONS	Reg www.mirza.co.li AND CONSOLI Quarter ended	CIN: L1912 d. Off.: 14/6, ( n: e-mail: com DATED FINANCI Stand Quarter ended	9UP1979PLC004 Civil Lines, Kanpi pliance@mirzaii IAL RESULTS FO lalone Quarter ended	IS21 ur - 208001 India.com Tel. : IR THE QUARTE Year ended	+91512 25307 ER ENDED 30th Quarter ended	75  JUNE 2024  (₹ in La  Consol  Quarter ended	idated Quarter ended	Y	1. 2. 3. 3. ear ed fared ("33 Hard) Hard	, लेजर पाइंट ऑकरोट 195, भेरठ-जार प्रदेश-250001 विषक कुमार गोयल, सं ! 250002 दीपक कुमार गोयल, 4. ! क्रमांक 3 एवं 4 दोनों का पत प्रदेश-251309 प्र प्रतिमृतिकरण एवं वितीय विमियम") के साथ पठित प्र	मुख्या पैजने की वारीख सुबना विपकाने की तारीख सादर-होरो होडा गती, दिल्ली बत रटेंड 35. गीडल्ला-गंज बाजार, गेरठ केंग्ट., मं व्य-गोयल व: मकान न 23, मंडी साकस्य 1, बुदाना- संपत्तियों के पुनर्गाटन लक्ष्म प्रतिसृति हित उ	05-08-2024 है के सामने, सदर, गेरट-उत्तर प्रदेश- गुजफ्करपुर, उत्तर पिटोन्यम, 2002 नियम 8(6) के
SI. Partice	website: website : website : website : website : website :	Reg www.mirza.co.ii AND CONSOLI Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited)	CIN: L1912: d. Off.: 14/6, 0 n: e-mail: com  DATED FINANC  Stand  Quarter ended 31.03.2024 (Audited)	9UP1979PLC004 Civil Lines, Kanpi pliance@mirzai IAL RESULTS FO lalone Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited)	RE21 ur - 208001 India.com Tel. : IR THE QUARTE Year ended 31.03.2024 (Audited)	+91512 25307 ER ENDED 30th Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited)	JUNE 2024 (₹ in La Consol Quarter ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited)	9 end 31.03.20 (Audit	1. 2. 3. 3. Grant	लेजर प्याइंट ऑफसेट 195, नेयर-जार प्रदेश: 250001 दीयक कुमार गोयल, तं !! 250002 दीयक कुमार गोयल, तं !! 250002 दीयक कुमार गोयल, तं !! प्रदेश: 251309 यः प्रतिमृत्तिकरण एवं विसीध यः प्रितिच्या के ताल पतिव उ वाली ("विध्या") के तालि व कराने की सुप्यान थै: अपन वाला नं 102-8144	युष्णा नेजने की वारीख गुपना विश्वकाने की वारीख सदर-दींगे होंडा गती, दिल्ली बत रहेंड 55, मोडल्ला-गंज बाजार, मेरट केण्ट., मं व्य गोयल मंगवल - 23, मडी बाऊम-1, युवाम-गं संपत्तियों के पुनर्गटन लग्ना मतिपूर्ति दिल व दिल्लीनि दिल (अर्थने) नियम, 2002 के बल्द सम्परियों को पुनर्गटिम, व्यापना में	05-08-2024 है के शामने, सदर, रिट-उत्तर प्रदेश- पुजफ्फरपुर, उत्तर विविनयम, 2002 नियम 8(6) के र (30) दिनों की
SI. Partice  1 Total Income from Operations 2 Net Profit/(Loss) for the Period (before	website : ACT OF UNAUDITED STANDALON ulars re tax, Exceptional and/or	Reg www.mirza.co.ii AND CONSOLI Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited) 13749.04	CIN: L1912: d. Off.: 14/6, 0 n: e-mail: com  DATED FINANCI  Stand  Quarter ended 31.03.2024 (Audited) 14327.54	9UP1979PLC004 Civil Lines, Kanpi pliance@mirzaii IAL RESULTS FO Juarter ended 30.06.2023 (Unaudited) 12690.24	IR THE QUARTE Year ended 31.03.2024 (Audited) 60985.48	+91512 25307 FR ENDED 30th Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited) 14372.53	75  JUNE 2024  (₹ in La  Consol  Quarter ended 31.03.2024 (Audited) 15295.30	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited) 13031.71	71.03.20 (Audit	1. 2. 3. 3. Grant Reed 24 (** 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	लेजर पाइंट ऑक्सेट 195, २८८-जार प्रदेश-250001 विक कुमार गोमल, ता 19 250002 टीमक कुमार गोमल, ता 19 250002 टीमक कुमार गोमल, ता 19 रोग-251030 पा चीमोंकियण एवं क्लियों प्रतिप्तान के साम परित प्र सामी प्रतिप्तान के साम परित प्र करने की पूरावा चे प्रयोग सामित्र मुल्ले चे प्रयोग सामित्र मुल्ले चे प्रयोग सामित्र मुल्ले चे प्रयोग सामित्र मुल्ले	युक्त फैनले की वासीख सुबना पिणकाने की वासीख सबद-दींगों होंडा गती, दिल्ली बल रहें ब 35, मोडल्ला-गंज बाजार, फैरट फैन्ट., में क्षे गोयल संभावन व 23, मंत्री वाकस्थ 1, बुदामा-गं संभावनित्र के पूर्णवेत क्या प्रतिस्कृति हित अ विस्कृति हित (शवर्षन) नियम, 2002 के बच सामानीयों को मुक्तिकाती के लिए वीर 323-2019-21 । सा सा सार्क कंपीन बनाए गए नियम के अं	05-08-2024 है के सामने, सदर, रिट-उत्तर प्रदेश- पुजक्करपुर, उत्तर विशिवम, 2002 नियम 8(6) के र (30) दिनों की
SI. No.  1 Total Income from Operations 2 Net Profit/(Loss) for the Period (befor Exaraordinary Items) 3 Net Profit/(Loss) for the period before	website : ACT OF UNAUDITED STANDALON  ulars  re tax, Exceptional and/or  e tax (after Exceptional and/or	Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited) 13749.04 182.02	CIN: L1912' d. Off.: 14/6, ( n:e-mail: com  DATEO FINANC  Stand  Quarter ended 31.03.2024 (Audited) 14327.54 135.16	9UP1979PLC004 Civil Lines, Kanpi pliance@mirzaii IAL RESULTS FO Jone Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited) 12690.24 243.65	R THE QUARTE  Year ended 31.03.2024 (Audited) 60985.48 1876.89	+91512 25307.  ER ENDED 30th  Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited) 14372.53 110.25	75  JUNE 2024  (₹ in La  Consol  Quarter ended 31.03.2024 (Audited) 15295.30  140.97	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited) 13031.71 286.24	9 end 31.03.20 (Audit 63837, 1659.	1. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	लेजर पाइंट ऑक्सेट 195, २८०-आर प्रदेग-250001 वीरक कुमार मोस्स, ता 19 250002 वीरक कुमार मोस्स, ता 19 250002 वीरक कुमार मोस्स, ता 19 वीरक कुमार मोस्स, वीर्मों का पर प्रदेग-251309 पर चीर्मीक्शान पूर्व विश्वास विशिव्या ) के साथ परीव ता सार्वीम्या किया की स्था प्रदेश की स्थान ता वीर्मी प्रदेश की स्थान ता वीर्मों के साथ प्रदेश ता सार्वीमां कीर्मीमा 2002 पर प्रदेश की स्थान मार स्थाना स्थान की यह द्वारिक्त का स्थान की यह	युष्या गेरुन से शै सारीख गुबना विपकाने की तारीख स्वय-दीशे होंडा गयी, दिल्ली बल रहें क 35, मोडल्ला-गंज बाजार, गेरट केण्ट., में व्य गोयल प्र म्थान न 23, मंदी बाक्स-1, युदाम-1 बंधियात के पुनर्गदन लगा प्रतिस्कृति हिन अ तिस्कृति वित (श्यर्वन) नियम, 2022 के बल सम्मीयों को गुका/बिजी के लिए सीर 123 2019 2.1 होंदी के लिए प्रतिभूति हों को कुक कर स्व मी गई कागृगी कार्यवाई के स्वाप्यों में है। स्वाच्यों बुक्ता करने केर प्रमुग्ता नकरने केर प्रमुग्ता नकरने	05-08-2024 है के शामने, सदर, रिट-उत्तर प्रदेश- प्रजानकरपुर, उत्तर विविन्यम, 2002 नियम 8(6) के व (30) दिनों की भें के उदेश्य हेतु आप इस्तेन्द्र्रीनिका गैं विकट को चुके
I Total Income from Operations  No.  No.  No.  No.  No.  No.  No.  No	website:  ACT OF UNAUDITED STANDALON  ulars  re tax, Exceptional and/or  et ax (after Exceptional and/or  tax (after Exceptional and/or  beriod (Comprising profit/(toss)	Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited) 13749.04 182.02	CIN: L1912 d. Off:: 14/6, ( n: e-mail: composition of the composition	9UP1979PLC004 Civil Lines, Karpi piliance@mizzai IAL RESULTS FO alone Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited) 12690.24 243.65	Year ended 31.03.2024 (Audited) 60985.48 1876.89	+91512 25307: FR ENDED 30th Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited) 14372.53 110.25	75  JUNE 2024 (₹ in La  Consol  Quarter ended 31.03.2024 (Audited) 15295.30 140.97	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited) 13031.71 286.24	9 enr 31.03.20 (Audit 63837. 1659.	1. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	लेजर पाइंट ऑक्सेट 1955, देन्द्र-जार प्रवेश-250001 विश्वक कुमार गोयल, तं !! 250002 व्यक्ति कुमार गोयल, तं !! ये किया के प्रयोग 251000 व्यक्ति कुमार विश्वक	युष्या गेरुन की सारीख गुयना पिपकाने की सारीख सदट-दीरो होंडा गयी, दिल्ली बल रहें ब 55. मीडल्ला-गंज बाजार, मेरठ केण्ट., मं त्रेष गोयल सं म्याना - 23, मडी साउध-1, युरामा- संपत्तियां के पुगर्गठन लगा प्रतिमृति हित अ तिमृति कित (श्यर्तन) नियम, 2002 के चल सम्पतियों के गुम्त/बिजी के लिए सीत प्र23-2019-21 की के लिए प्रतिमृति दिव को कुक कर रा जी गई कागृती कार्यवाई के सार्य में हैं स्वाच्यों युक्ता करने किर पुगाना करने उठायों युक्ता करने किर पुगाना करने	05-08-2024 है के सामने, रादर, रादर-उत्तर प्रदेश- प्रतर्थ-उत्तर प्रदेश- प्रतर्थ-उत्तर प्रदेश- प्रतर्थ-उत्तर प्रदेश- प्रत्या हरेल्य हैंनु प्रतर्थ-विकास हैंने के उद्येश्य हैंनु प्रत्या हरेल्युक्तिक त अवक स्वरामुद्ध रू ध्यान दिल्लाम
SI. No.  1 Total Income from Operations 2 Net Profit/(Loss) for the Period (befor Extraordinary Items) 3 Net Profit/(Loss) for the period before Extraordinary Items) 4 Net Profit/(Loss) for the period after textraordinary items) 5 Total Comprehensive Income for the pfor the period (after tax) and other co	website:  ACT OF UNAUDITED STANDALON  ulars  re tax, Exceptional and/or  et ax (after Exceptional and/or  tax (after Exceptional and/or  beriod (Comprising profit/(toss)	Reg www.mirza.co.in AND CONSOLI Quarter ended 30.06, 2024 (Unaudred) 15749.04 182.02 182.02	d. (N: 11912) d. (N: 14/6, 6) n: e-mail: com DATED FINANCI  Stand  Quarter ended 31,03;024 (Audited) 14327.54 135.16 88.66	9UP1979PLC004 Civil Lines, Kappapiplance@miss, Kappapiplance@miss Fc alone Quarter ended 30.66.2023 (Unaudited) 12690.24 243.65 243.65	1821 ur - 208001 ur - 208001 dida.com Tel. : IR THE GUARTE Year ended 31.03.2024 (Audited) 60985.48 1876.89 1876.89	+91512 25307 R ENDED 30th Quarter ended 30.06, 2024 (Unaudited) 14572,53 110.25 110.25 64.19	75 JUNE 2024 (\$ in La Consol Quarter ended 31.03.2024 (Audited) 15295.30 140.97 140.97	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited) 13031.71 286.24 244.27	Y end 31.03.20 (Auditi 63837. 1659. 1203.	1. 2. 3. 3. 4ard ed	लेजर पाइंट ऑक्सेट 1955, देन्द्र-जार प्रवेश-250001 विश्वक कुमार गोयल, तं !! 250002 व्यक्ति कुमार गोयल, तं !! ये किया के प्रयोग 251000 व्यक्ति कुमार विश्वक	सुष्या नेवनं की सारीख सुप्या पिणकाने की सारीख रादर-हीरो होंडा गरी, दिस्ती बल रहेंड 55, मीडल्सा-गंज बाजार, पेरट कैपट, पं के गोयल हा स्थान न 23, गंडी साऊम-1, पुराना- संपरियों के पुनर्गठन समा प्रतिपृत्ति हिन अ तिस्तृति हिन (अवतंन) नियम, 2002 के बच्च सम्परियों के मुक्त/बिज़ी के लिए तीर 323-2019-21 हामा सार्क ज्योग बनाए गए नियम के जो ली के लिए प्रतिपृत्ति हिन को कुके कर स्व ती गई लागुनी कार्योंक के स्वरूप स्व गोड़ जागुनी कार्योंक के स्वरूप स्व गोड़ जागुनी कार्योंक के स्वरूप एटा किया जागु के स्वरूप एटा किया जागु के सार्वा में	05-08-2024 है के सामने, रादर, रादर-उत्तर प्रदेश- रादर-उत्तर प्रदेश- रादर-उत्तर प्रदेश- रादर-विश्वक, 2002 नियम 8(6) के १ १ (30) दिनों की वर्गत मंत्रियों का ने के जरेश्य हेतु प्राप्त स्वेल्युंगिक ने अपने स्वापन्ति के अध्यक्ष स्वरामुद्ध क अध्यक्ष स्वरामुद्ध
I Total Income from Operations  No.  No.  No.  No.  No.  No.  No.  No	website:  ACT OF UNAUDITED STANDALON  ulars  re tax, Exceptional and/or  e tax (after Exceptional and/or  tax (after Exceptional and/or  beriod [Comprising prefit/(loss)  comprehensive income(after tax)]	Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited) 13749.04 182.02 136.02	CIN: L1912 d. Off: 14/6, 0 n: e-mail: composition of the composition o	9UP1979PLC004 Civil Lines, Kanpa pipiance@miss. IAL RESULTS FO Jalone Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited) 12690.24 243.65 243.65	RE21 ur - 208001 dia.com Tel. : R THE QUARTE  Year ended 31.03.2024 (Audited) 60985.48 1876.89 1876.89	+91512 25307:  ENDED 30th  Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited) 14372.53 110.25 110.25 64.19	75  JUNE 2024  (₹ in La  Consol  Quarter ended 31.03.2024  (Audited) 15295.30  140.97  140.97	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited) 13031.71 286.24 286.24	Y end 31.03.20 (Audit 63837. 1659. 1203. 1247.	1. 2. 3. 3. 4ard ed ed flore de	लेकर प्याहंट ऑक्सरेट 195, वेर-उन्मार प्रदेश 250001 विकेक कुमार गोमल, से 19250002 विकेक कुमार गोमल, से 1925002 विकेक विक	सुष्या नेवनं से पारीख सुप्या पिणकाने की पारीख राद्या पिणकाने की पारीख राद्या होता होता है। हिस्सी बस रहें क 55. मीहल्सा-गंज बाजार, ऐस्ट कैपट, मं के गोयल इ. मकान न 23, मंत्री साकस्य 1, पुरासा है संस्थिति हैत (अवर्तन) मित्रस, 2002 के स्वा मार्ग के प्रमुख्या के हिस्स की हैता है। हिस (अवर्तन) मित्रस, 2002 के स्व स्वाचीयों के हिस्स की हैता है। हिस अविज्ञानि हैता के हैता होता है। इस प्रतिमुख्या है के हिस्स प्राचान करने 002 के प्रस्थानों के हिस्स मुख्यान करने 002 के प्रस्थानों के स्वी मार्ग के स्वार्ट हैं। हाशिक्ष हैन साम्या क्या है। हाशिक्ष हैन साम्या क्या है। हाशिक्ष हैन साम्या क्या है।	05-08-2024 है के सामने, रादर,  रंदर-उत्तर प्रदेश- प्रतरक्ष्मपुर, उत्तर  प्रदेश- प्रितिसम, 2002  नियम 8(6) के  १ (30) हिनों की  रंपर मणिल्यों का  ने के उद्देश्य हेंतु  उपाय इतिहासिक  ते अवहर सामन्य  रंपर  सामन्य  स
SI. No.  1 Total Income from Operations 2 Net Profit/(Loss) for the Period (befor Extraordinary Items) 3 Net Profit/(Loss) for the period before Extraordinary Items) 4 Net Profit/(Loss) for the period after textraordinary items) 5 Total Comprehensive Income for the period (after tax) and other co 6 Equity Share Capital 7 Reserves (excluding Revaluation Reser	website:  AGT OF UNAUDITED STANDALON  tre tax, Exceptional and/or  e tax (after Exceptional and/or  tax (after Exceptional and/or  period [Comprising profit/floss)  comprehensive income(after tax)]  rove)	Reg www.mirza.co.in AND CONSOLI Quarter ended 30.06, 2024 (Unaudred) 15749.04 182.02 182.02	d. (N: 11912) d. (N: 14/6, 6) n: e-mail: com DATED FINANCI  Stand  Quarter ended 31,03;024 (Audited) 14327.54 135.16 88.66	9UP1979PLC004 Civil Lines, Kappapiplance@miss, Kappapiplance@miss Fc alone Quarter ended 30.66.2023 (Unaudited) 12690.24 243.65 243.65	1821 ur - 208001 dida.com Tel. : R THE QUARTE Year ended 31.03.2024 (Audited), 60985.48 1876.89 1876.89	+91512 25307 R ENDED 30th Quarter ended 30.06, 2024 (Unaudited) 14572,53 110.25 110.25 64.19	75 JUNE 2024 (\$ in La Consol Quarter ended 31.03.2024 (Audited) 15295.30 140.97 140.97	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited) 13031.71 286.24 244.27	Y end 31.03.20 (Auditi 63837. 1659. 1203.	1. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	लेजर चार्डट ऑकसेट 1955, देरट-जार प्रवेश-250001 दिशक कुमार मोसल, तं । 1250007 व्याद प्रवेश-250001 दिशक कुमार मोसल, तं । 1250007 व्याद मोसल, तं । 1250007 व्याद मोसल, तं । 1250007 व्याद मोसल, वं विनों के पत्र जीना क	युक्त फैराने की सारीख मुखना विपकाने की सारीख रादद-हीरो होंडा गली, दिल्ली बल रहें क 35 - मीडल्ला-गंज बाजार, मेरट फैरट, मं क्ष्म गोयल 1: मकान नं-23, मडी साक-ध-1, युदाग- संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिमृति हित अ तिमृति हित (यदाँन) नियम, 2002 के बल सम्पतियों को मुला/बिजी के लिए चीर 322-2019-2-1 मात्रा चारके आधीन कहाए गए विद्या के ओ ली के लिए प्रतिमृति हित को कुके कर ता जी गई कामूनी कार्यवाई के सार्थ में हैं स्वाच्यों युक्ता करने किए पुनान करने उपायाओं युक्ता करने किए पुनान करने उपायाओं युक्ता करने किए पुनान करने (हितिपेटेट ने माननीय प्यायाना के किए सिक ककार्य कर हित्य है। 30 दिनों के अकार चनने परने किया की	05-08-2024 है के सामने, रादर, रिट-उत्तर प्रदेश- (रट-उत्तर प्रदेश- (जणकरपुर, उत्तर सिंगिन्सन, 2002 सिंगिन्सन (8) के  रिचय 8() के  रिचय 8() के  रिचय 8() के  रिचय हैं।  राज्य इनेव्हिमिक स्वामुद्ध  राज्य इनेव्हिमिक स्वामुद्ध  राज्य इनेव्हिमिक स्वामुद्ध  राज्य इनेव्हिमिक स्वामुद्ध  राज्य (इनेव्हिमिक स्वाम अग्रेक स्वाम स्वा
SI. No.  1 Total income from Operations 2 Net Profit/(Loss) for the Period (befor Extraordinary Items) 3 Net Profit/(Loss) for the period befor Extraordinary items) 4 Net Profit/(Loss) for the period after textraordinary items) 5 Total Comprehensive Income for the for the period (after tax) and other co. 6 Equity Share Capital 7 Reserves (excluding Revaluation Reservas shown in the Balance sheet of the passenge as shown in the Balance sheet of the passenge in the Balance sheet of the pa	website:  AGT OF UNAUDITED STANDALON  tre tax, Exceptional and/or  e tax (after Exceptional and/or  tax (after Exceptional and/or  period [Comprising profit/floss)  comprehensive income(after tax)]  rove)	Reg www.mirza.co.in AND CONSOLI Quarter ended 30.06, 2024 (Unaudred) 15749.04 182.02 182.02	d. (N: 11912) d. (N: 14/6, 6) n: e-mail: com DATED FINANCI  Stand  Quarter ended 31,03;024 (Audited) 14327.54 135.16 88.66	9UP1979PLC004 Civil Lines, Kappapiplance@miss, Kappapiplance@miss Fc alone Quarter ended 30.66.2023 (Unaudited) 12690.24 243.65 243.65	1821 ur - 208001 dida.com Tel. : R THE QUARTE Year ended 31.03.2024 (Audited), 60985.48 1876.89 1876.89	+91512 25307 R ENDED 30th Quarter ended 30.06, 2024 (Unaudited) 14572,53 110.25 110.25 64.19	75 JUNE 2024 (\$ in La Consol Quarter ended 31.03.2024 (Audited) 15295.30 140.97 140.97	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited) 13031.71 286.24 244.27	Y end 31.03.20 (Audit 63837. 1659. 1203. 1247.	1. 2. 3. 3. 4ard de	लेकर प्याहंट ऑक्सरेट 195, वेर-उन्मार प्रदेश 250001 वेरिक कुमार गोमार, तो 192000 विकेक कुमार गोमार, तो 192000 वेरिक कुमार गोमार, तो 192000 वेरिक कुमार गोमार, तो 192000 वेरिक कुमार गोमार, ते रात गोमार केरिक 251000 वेरिक कुमार गोमार ते 19200 वेरिक कुमार गोमार वेरिक 251000 वेरिक	युक्त ने ने की सारीख युवना विण्काने की सारीख शदर-हींगे होंठा गती, दिल्ली बल रहें क 55, मीहल्ला-गंज बाजार, शेरठ कैपट, ' के बोचल क गोचल 1-23, गती साऊम-1, युवना-गं संपत्तियों के युनर्गठन लगा यतियुक्ति हित अ तियुक्ति हित (अवर्तन) भिवार, 2002 के बच्चा में प्रमुख्या के लियुक्ति हित अ तियुक्ति हित (अवर्तन) भिवार, 2002 के बच्चा में प्रमुख्या के लियुक्ति हैं के लियुक्ति होंगे किए प्रतिभूति हित को कुके कर बच्चा में कुमानी कार्योग कुके कर बच्चा में कुमानी कार्योग के सेविय एउट के प्रमुख्या में के सिर पुरातान करने उपल किया जाता है। आपको एक बार हि हास्तिक में माना करने किया माना करने उपल किया जाता है। आपको एक बार हि हास्तिक में माना व्यागाल के लियुक्ता उपल किया व्यागाल के लियुक्ति व्यागाल के लियुक्ता	05-08-2024 है के सामने, रादर, रेरव-दार प्रदेश- रेरव-दार प्रदेश- प्रकार प्रदेश- प्रकार के स्टेश्य हैं। जार इलेक्ट्रीनिका में किएत हैं। जार इलेक्ट्रीनिका में किएत हैं। जार इलेक्ट्रीनिका रेपिका हैं। जार इलेक्ट्रीनिका स्टेश्य हैं। जार इलेक्ट्रीनिका स्टेश्य हैं। जार इलेक्ट्रीनिका स्टेश्य हैं। जार इलेक्ट्रीनिका स्टेशान दिलाया कर के माध्यम में समय आपके ऋषा जीर मुखाना नक का मुक्ति अस्टी के स्टार्थ माध्य स्टेशान
SI. No.  1 Total Income from Operations 2 Net Profit/(Loss) for the Period (befor Extraordinary Items) 3 Net Profit/(Loss) for the period before Extraordinary Items) 4 Net Profit/(Loss) for the period after textraordinary items) 5 Total Comprehensive Income for the period (after tax) and other co 6 Equity Share Capital 7 Reserves (excluding Revaluation Reser	website:  ACT OF UNAUDITED STANDALON  blars  re tax, Exceptional and/or  tax (after Exceptional and/or  tax (after Exceptional and/or  beriod [Comprising profit/(loss)  comprehensive income(after tax)]  rve)  previous year	Reg www.mirza.co.in AND CONSOLI Quarter ended 30.06, 2024 (Unaudred) 15749.04 182.02 182.02	d. (N: 11912) d. (N: 14/6, 6) n: e-mail: com DATED FINANCI  Stand  Quarter ended 31,03;024 (Audited) 14327.54 135.16 88.66	9UP1979PLC004 Civil Lines, Kappapiplance@miss, Kappapiplance@miss Fc alone Quarter ended 30.66.2023 (Unaudited) 12690.24 243.65 243.65	1821 ur - 208001 dida.com Tel. : R THE QUARTE Year ended 31.03.2024 (Audited), 60985.48 1876.89 1876.89	+91512 25307 R ENDED 30th Quarter ended 30.06, 2024 (Unaudited) 14572,53 110.25 110.25 64.19	75 JUNE 2024 (\$ in La Consol Quarter ended 31.03.2024 (Audited) 15295.30 140.97 140.97	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited) 13031.71 286.24 244.27	Y end 31.03.20 (Audit 63837. 1659. 1203. 1247.	1. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	लेजर प्याइंट ऑकसेट 1955, रेन्टर-जंगर प्रवेश-250001 दिशक कुमार गोयल, न र 1920002 प्रवेश-2500002 प्रवेश-2500002 प्रवेश-2500002 प्रवेश-2500002 प्रवेश-2500002 प्रवेश-2500002 प्रवेश-250000 प्रवेश-250000 प्रवेश-250000 प्रवेश-250000 प्रवेश-250000 प्रवेश-25000000000000000000000000000000000000	युक्त फैराने की सारीख मुखना विपकाने की सारीख स्वद-हींगों होंडा गली, दिल्ली बल रहें क 35, गीडल्ला-गंज बाजार, मेरट फैरट., मं में मोयल र-मांचल के पुनर्गटन त्या प्रतिमृति हिन अ तिमृति विद (श्वर्तन) नियम, 2002 के ब्लामिति विद (श्वर्तन) नियम, वे अ तिमृति विद (श्वर्तन) नियम, वे अ तिमारी के प्रतिमृति वित के कुक कर या गाँच मांचित प्रतिमृति विद के कुक कर प्रवास के मांचित प्रतास के स्वित में प्रतास के मांचित प्रयास के किंदि (हिमोटेंट ने माननीय प्यासस्य के हिस्ति हिस्ति के किंदि मांचित प्रयास के हिस्ति किंद क्वर्यक कर हिस्ति क्वर्यक के स्वत्स नियम के साथ साथार के स्वित तिक क्वर्यक कर हिस्ति क्वर्यक के स्वत्स स्वत्स के स्वत्स के स्वत्स स्वत्स के स्वत्स के स्वत्स के स्वत्स स्वत्स के स्वत्स के स्वत्स के स्वत्स स्वत्स के स्वत्स के स्वत्स स्वत्स स्वत्स के स्वत्स के स्वत्स स्वत्स के स्वत्स स्वत्स के स्वत्स स्वत्स के स्वत्स स्वत्स स्वत्स के स्वत्स स्वत्स के स्वत्स स्वत	05-08-2024 है के सामने, रादर, रिट-उत्तर प्रदेश- (रट-उत्तर प्रदेश- (प्राचन) (रट-उत्तर प्रदेश- (प्रचन) (रट-उत्तर प्रदेश- (प्रचन) (रट-उत्तर प्रचन) (रट-उत्तर प्रचन) (प्रचन)
SI. Particum.  1 Total Income from Operations 2 Net Profit/(Loss) for the Period (befor Extraordinary Items) 3 Net Profit/(Loss) for the period befor Extraordinary items) 4 Net Profit/(Loss) for the period after textraordinary items) 5 Total Comprehensive Income for the priod (after tax) and other conficulty of the period (after tax) and other conficulty of tax and other conficulty of the period (after tax) and other conficulty of tax and other con	website:  ACT OF UNAUDITED STANDALON  blars  re tax, Exceptional and/or  tax (after Exceptional and/or  tax (after Exceptional and/or  beriod [Comprising profit/(loss)  comprehensive income(after tax)]  rve)  previous year	Reg www.mirza.co.in AND CONSOLI Quarter ended 30.06, 2024 (Unaudred) 15749.04 182.02 182.02	d. (N: 11912) d. (N: 14/6, 6) n: e-mail: com DATED FINANCI  Stand  Quarter ended 31,03;024 (Audited) 14327.54 135.16 88.66	9UP1979PLC004 Civil Lines, Kappapiplance@miss, Kappapiplance@miss Fc alone Quarter ended 30.66.2023 (Unaudited) 12690.24 243.65 243.65	1821 ur - 208001 dida.com Tel. : R THE QUARTE Year ended 31.03.2024 (Audited), 60985.48 1876.89 1876.89	+91512 25307 R ENDED 30th Quarter ended 30.06, 2024 (Unaudited) 14572,53 110.25 110.25 64.19	75 JUNE 2024 (\$ in La Consol Quarter ended 31.03.2024 (Audited) 15295.30 140.97 140.97	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited) 13031.71 286.24 244.27	Y end 31.03.2C (Audit 63837. 1659. 1203. 1247. 2764. 52497.	1. 2. 3. 3. 4ar de de 24 (*a* 4. 5. 5. 5. 1. 5.	लेकर प्याहंट ऑक्सरेट 195, वेर-उन्हार प्रदेश-250001 वेरिक कुमार गोमार तो 195, वेर-उन्हार प्रदेश-250001 वेरिक कुमार गोमार तो 1920002 विक कुमार गोमार तो 1920002 वेरिक कुमार गोमार तो 1920002 वेरिक कुमार गोमार गोमा	युक्त ने ने की सारीख युवना विण्काने की सारीख शदर-हींगे होंठा गती, दिल्ली बल रहें क 55, मीहल्ला-गंज बाजार, शेरठ कैपट, ' के बोचल क गोचल 1-23, गती साऊम-1, युवना-गं संपत्तियों के युनर्गठन लगा यतियुक्ति हित अ तियुक्ति हित (अवर्तन) भिवार, 2002 के बच्चा में प्रमुख्या के लियुक्ति हित अ तियुक्ति हित (अवर्तन) भिवार, 2002 के बच्चा में प्रमुख्या के लियुक्ति हैं के लियुक्ति होंगे किए प्रतिभूति हित को कुके कर बच्चा में कुमानी कार्योग कुके कर बच्चा में कुमानी कार्योग के सेविय एउट के प्रमुख्या में के सिर पुरातान करने उपल किया जाता है। आपको एक बार हि हास्तिक में माना करने किया माना करने उपल किया जाता है। आपको एक बार हि हास्तिक में माना व्यागाल के लियुक्ता उपल किया व्यागाल के लियुक्ति व्यागाल के लियुक्ता	05-08-2024 है के सामने, रादर, रिरक-दसर प्रदेश- (रद-दसर प्रदेश- (प्रक-प्रदूर, प्रतर- (प्रक-प्रदेश, प्रतर- (प्रिक्तियम, 2002 नियम 8(6) के र र (30) दिनों की अदेश्य हेतु आप इतेल्ड्रांनिका में किकट हो चुके ते अवक अस्मान्त रहना प्रदेश कर के माजप में स्थाप अपके ऋण जीर प्राचाना तक त र माजपा में सम्म

Notes: a) The above is an extract of the detailed format of the quarterly and year ended Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchange(s) under the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full Format of Quarterly Financial Results are available on the websites of 8SE and MSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on Company's website at www.mirza.co.in. b) The above Consolidated Financial Results of Mirza International Limited (The Company), Wholly Owned Subsidiaries (WOS) i.e. T N S Hotels And Reports Printed Limited and RTS assistant Ltd., are drawn in terms of Regulation 53 of Settl (LORR) Regulations, 2015. c) The ablow company, mining printed and RTS assistant Ltd., are drawn in terms of Regulation 53 of Settl (LORR) Regulations, 2015. c) The ablow company, are received by the Audit Committee and approved by the Board of Directions at their respective meetings held on August 5, 2024. The auditons of the Company have carried out at Limited Review Report on the Un-audited Financial Results for the quarter ended 30, 06, 2024. d) Figures for the period have been regrouped/rearranged whenever receives any tomake them comparable.

For Mirza International Limited

For Mirza In For Mirza International Limited

(Tauseef Ahmad Mirza)

Managing Director (DIN 00049037)

Powered by Ninestars

इलेक्ट्रॉनिका फाइनैंस लिमिटेड, अधिकृत अधिकारी

खाते में रू. 59,79,019/- के साथ अनुबंधकीय दर पर भविष्य के ब्याज की रकम बकाया एवं

सम्पत्ति का विवरणः

"मोहल्ला गंज बाजार, भेरठ कैण्ट., उत्तर प्रदेश में खिदा दो मंजिला भवन सं. 195 का भाग, क्षेत्र का परिमाप 61.87 वर्ग मीटर यानी 74 वर्ग यार्ड का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा तथा

चीहरी: पूर्व की ओर: श्रीमती संतोष अववाल का मकान, सामान्य दीवार, पश्चिम की और: अल्का गुप्ता का मकान, सामान्य दीवार, उत्तर की और: अन्य स्वरवाधिकारी की सम्पत्ति,

भुगतेय है, जिस पर आप कृपया ध्यान दें।

पृथक दीवार, दक्षिण की ओर: बंद गली।

जिसकी चौहदी निम्नानुसार है:-

© 2024 Business Standard Epaper

Date: 05.08.2024

Place : New Delhi